

तुरंत रिलीज के लिए

**सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने यूनाइटेड वे के लिए फंड एकत्र करने हेतु  
लॉन्गैस्ट नाइट में हिस्सा लिया**



मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), काउंसलर फोर्टिनी (Fortini) और काउंसलर सिंह (Singh) ने, लॉन्गैस्ट नाइट में हिस्सा लेने से पहले, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की टीम को शुभकामनाएं दीं।

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (26 फरवरी, 2022) – कल रात, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने लॉन्गैस्ट नाइट (Longest Night) में हिस्सा लिया। यह एक सालाना कार्यक्रम है, जो गरीबी में रहने वाले बच्चों और वयस्कों के सामने आने वाली रोजाना की चुनौतियों के बारे में जागरूकता

फैलाने के लिए, अलग-अलग व्यक्तियों और परिवारों को उनकी कार में एक रात बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है। पूरे संगठन के टीम मेम्बर्स और उनके पारिवारिक मेम्बर्स सहित, दस व्यक्तियों ने इस सादगीपूर्ण अनुभव के लिए मुश्किल स्थितियों में रात बिताई।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के स्टाफ और हिमायतियों ने इस पहलकदमी की हिमायत में 5,000 डॉलर की राशि एकत्र की, जो सिटी के फंड एकत्र करने वाले सालाना अभियान, यूनाइटेड वे (United Way) में जाएगी। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, 40 से अधिक वर्षों से यूनाइटेड वे की गौरवपूर्ण हिमायती रही है और इसने उस समय के दौरान सफलतापूर्वक लगभग 2.5 मिलियन डॉलर का फंड एकत्र किया, जो सीधे कम्युनिटी की सहायता के लिए गया है।

## हवाले

“मुझे उन टीम मेम्बर्स पर बहुत गर्व है, जो इस चुनौती का सामना करने और गरीबी तथा बेघर होने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, लॉन्गोस्ट नाइट में हिस्सा लेने के लिए आगे आए। यह हमारी कम्युनिटी में बहुत-से लोगों की असलियत है। हमें बहुमूल्य फंड एकत्र करने के लिए हर वर्ष, यूनाइटेड वे के साथ साझेदारी करने पर गर्व है, जो सीधे बेहद जरूरतमंद लोगों की सहायता में जाते हैं, जिन्हें अब इसकी पहले से भी अधिक जरूरत है। ब्रैम्पटन के लिए ऐसा बहुमूल्य संसाधन बनने के लिए, यूनाइटेड वे का धन्यवाद।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“लगातार चौथे वर्ष, 2022 के लिए यूनाइटेड वे कमेटी काउंसिल स्पांसर बनना और ऐसी टीम के साथ काम करना सम्मान की बात है, जो कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और हमारी कम्युनिटी के लिए फंड एकत्र करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करती है। मुझे यह देखकर बहुत गर्व हो रहा है कि हमने, लॉन्गोस्ट नाइट पहलकदमी के साथ, फंड एकत्र करने के हमारे लक्ष्य से भी अधिक फंड एकत्र किया है। यह, फंड एकत्र करने के हमारे सालाना अभियान को शुरू करने का शानदार तरीका है।”

- डग विलैन्स (Doug Whillans), यूनाइटेड वे, सिटी काउंसलर, वार्ड्स 2 और 6

“लॉन्गोस्ट नाइट में हिस्सा लेना सचमुच बहुत ही सादगीपूर्ण अनुभव था, जिसने असलियत देखने का अवसर प्रदान किया, जिसका सामना, हमारी कम्युनिटी के बहुत-से लोग रोजाना रात को करते हैं। मुझे इस वर्ष, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की यूनाइटेड वे कमेटी का चेयर बनने और वालंटियर्स की जोशीली टीम के साथ काम करने पर गर्व है, जो हमारी कम्युनिटी की सहायता के लिए बिना थके काम करती है।”

- स्टीव गैनेश (Steve Ganesh), 2022 यूनाइटेड वे कमेटी चेयर, मैनेजर, डिवेलपमेंट सर्विसिज

“मैं लॉन्गोस्ट नाइट में उनकी शानदार और जारी हिमायत के द्वारा फंड एकत्र करने और बेघर होने के बारे में जागरूकता फैलाने, दोनों के लिए सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का धन्यवाद करता हूँ। पील रीजन में, 10,800 से अधिक व्यक्ति हैं, जो बेघर हैं या जिन्हें बेघर होने का जोखिम है। यूनाइटेड वे, पील में कम्युनिटी की हिमायत और गरीबी को दूर करने के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन जैसे कम्युनिटी संगठनों के साथ साझेदारी जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।”

- डैनियल ज़ैनोटी (Daniele Zanotti), प्रेजिडेंट और सी.ई.ओ., यूनाइटेड वे ग्रेटर टोरोंटो

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया  
[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)